

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, नवगछिया
Email Id-cenavgachhiya@gmail.com

पत्रांक 1826

नवगछिया/ दिनांक 01/10/24

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल नवगछिया।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,
विश्वेश्वरैया भवन, वेली रोड़, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना अन्तर्गत पथ में आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संलग्न विवरणी अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के निर्माण कार्य मद में राशि 110.00000 लाख रुपये का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि संवेदक द्वारा कराये गये निर्माण कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनु०-पथ विवरणी, उपयोगिता प्रमाण-पत्र,
की छाया प्रति।

विश्वसभाजन



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल नवगछिया



Requisition Format for Scheme MMSGUY

Name of the Works Division :-Navgachhiya

Sl. No.	Package No.	Project ID as per MIS	Name of Road	AA Length (in km.)	Administrative Approval (construction work) Amount (in Lakh)	Agreement (construction work) Amount (in Lakh)	Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Work Status (WBV/MM M/BM/SDBC etc.)	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content (in %)	Total Previous Allotted Amount (in Lakh)	Upto date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Value of Work Done (in Lakh)	Current Demand (in Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MMGSUY/2023-24/NAVGAHHY A/03	30709330300010	MD MUSTAKIN SAH KE GHAR TO MURUDHAR THAKUR KE GHAR TAK VIA MAHADALIT TOLA	1.75	122.694	112.14458	01MIBD/2024-25	15.07.2025	WORK IN PROGRESS	ONLY PCC	2867.833	PCC & BT	5.10%	0	0	110	110	

600

It is certified that Physical & Financial Progress has been updated in MIS.

Note :-

- 1 Above Signed Copy along with Forwarding Letter & Utilisation Certificate must be uploaded in MIS.
- 2 Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed (As Applicable).

[Signature]
Executive Engineer
RWD/Works Division Navgachhiya
06/10/2024

FORM GFR 19-A
(See Government of India's Decision (I) below Rule-150
Form of Utilization Certificate up to the Month-August 2024
MUKHYA MANTRI GRAM SARAK UNNAYAN YOJNA

PIU - R.W.D. Works Division Navgachhiya

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in laes Rs.)	Amount Received (in Laes Rs.)	Particulars
1.	Construction of Rural Roads under MUKHYA MANTRI GRAM SARAK UNNAYAN YOJNA	Letter No -77 PATNA, DATE-13.06.2024 BRRDA(HQ)MMGSUY	465.00000	Certified that out of Rs.665.30000 Lakhs received upto the years 2024-25 in favour of Ex. Engineer, RWD Bihar, Navgachhiya a sum of Rs.665.21456.000 lakhs has been utilized for the purpose of MMGSUY Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs.00.08544 lakhs the end of the period under.
Total			465.00000	

2. Certified that I have satisfied may self that the conditions on which the grants in aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.
- Kinds of Checks exercised-
- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer
 - Periodical inspection has been conducted by Executive engineer/Superintending Engineer
 - Construction materials have been tested.
 - Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer
 - All other codal formalities have been observed.
3. Physical Progress achieved-
- Construction of Road Works
 - Construction of C.D. Works



 Executive Engineer
 Rural Work Department
 Works Division Navgachhiya
 11/10/24

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, नवगछिया
Email Id-eeavgachhiya@gmail.com

प्रमाणित किया जाता है कि शीर्ष 3054(MR) नई अनुरक्षण नीति 2018 योजनान्तर्गत MD MUSTAKIN SAH KE GHAR TO MURLIDHAR THAKUR KE GHAR TAK VIA MAHADALIT TOLA पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है जिसमें कनीय अभियंता द्वारा कार्य के सभी मदों की जाँच शत प्रतिशत की गई एवं सहायक अभियंता के द्वारा 50 प्रतिशत की गई तथा कार्यपालक अभियंता के द्वारा 10 प्रतिशत जाँच की गई जो गुणवत्ता पूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।


11/01/24

कनीय अभियंता


11/01/24

सहायक अभियंता


11/01/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल नवगछिया

Name of Customer : Marcom Infra Private Limited
Name of Work : ke ghar tak via Mohaddoli Tola
Road :
Lab Job number : 54
Date : 27-09-2024
Section No. : 54


Print Generate Report and Graph

Test Date : 27-09-2024
Road Name : ke ghar tak via Mohaddoli Tola
Machine No : 485
Road Type : (R) RURAL ROAD
Start S No :
Start E No :
Side :
Interval :
Weather :
U/V Range : 1109 To 5000 1000 mm/km
Start Location : 649 86 991 303 Dist Range : 0 To 1.9 0.1 1000 m
End Location : 211 86 938 627 Equation : $Y = 0 * X^2 + 0.969 * X + 74.60$

Redraw Graph

Map View

File : E:\bump nagachya construction\yavishakar pandey\new group\mustakim 1\02031167.Xls, Section No. : 54.
Name of Customer : Marcom Infra Private Limited, Name of Work/ Road : MD Mustakim Saath ke Ghar to Muridhar



GR
11/10/24
JE

11/10/24
JE

Shubham
11/10/24
JE

Name of Customer: Marcom Infra Private Limited

Name of Road :MD Mustakim Saah ke Ghar to Murlidhar thakur ke ghar tak via Mahadalit Tola

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR	IRI	CATEGO RY ROAD	Latitude	Longitude	Event
						mm/km	mm/km				
27/9/24	11:44:27	54	0.1	280	0	2800	2787 G		25.41865	86.9913	Normal
27/9/24	11:45:29	54	0.1	370	20.2	3700	3659 G		25.4193	86.99176	Normal
27/9/24	11:46:4	54	0.1	280	20.2	2800	2787 G		25.42037	86.99245	Normal
27/9/24	11:46:40	54	0.1	300	40.4	3000	2981 G		25.42161	86.99311	Normal
27/9/24	11:47:15	54	0.1	210	30.3	2100	2109 G		25.42234	86.99349	Normal
27/9/24	11:47:25	54	0.1	260	30.3	2600	2593 G		25.42292	86.99388	Normal
27/9/24	11:47:35	54	0.1	380	20.2	3800	3756 G		25.42323	86.9945	Normal
27/9/24	11:48:0	54	0.1	220	30.3	2200	2206 G		25.42423	86.99545	Normal
27/9/24	11:48:15	54	0.1	370	20.2	3700	3659 G		25.42535	86.99638	Normal
27/9/24	11:48:25	54	0.1	280	20.2	2800	2787 G		25.42706	86.99732	Normal
27/9/24	11:49:1	54	0.1	220	30.3	2200	2206 G		25.42715	86.99826	Normal
27/9/24	11:49:19	54	0.1	370	20.2	3700	3659 G		25.42715	86.99826	Normal
27/9/24	11:49:36	54	0.1	280	20.2	2800	2787 G		25.42675	86.99829	Normal
27/9/24	11:50:0	54	0.1	220	30.3	2200	2206 G		25.42609	86.99975	Normal
27/9/24	11:50:11	54	0.1	370	20.2	3700	3659 G		25.42584	86.99982	Normal
27/9/24	11:50:47	54	0.1	280	20.2	2800	2787 G		25.42524	86.99964	Normal
27/9/24	11:51:0	54	0.1	280	20.2	2800	2787 G		25.42521	86.99963	Normal
27/9/24	11:51:22	54	0.1	220	30.3	2200	2206 G				

Total IRI

51621

Average IRI

2867.833

$Y = 0 \cdot X^2 + 0.969 \cdot X + 74.60$
 $X = 2200$
 $Y = 2206$
 (R) RURAL ROAD
 Good Average Poor
 <4000 4001-5000 >5001

CR
 11/10/24
 SE

11/10/24
 01/10/24